



# ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

Regd. Office : DSC-327, Second Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017  
Tel.: +91-11-40517610, E-mail : alliance.intgd@rediffmail.com, Website : www.aiml.in  
CIN : L65993DL1989PLC035409

**Ref. No.: AIML/BSE/2023-24**

**Date: 02<sup>nd</sup> August, 2023**

**To,**  
The Manager  
Listing Department  
BSE Limited,  
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400001

**Scrip code: 534064**

**Sub.: Submission of Newspaper cutting pertaining to publication of Un-Audited Financial Result for the Quarter ended on June 30, 2023**

**Dear Sir/Madam,**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed newspaper cuttings pertaining to Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended on June 30, 2023 published in the newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi).

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully

For **Alliance Integrated Metaliks Limited**

**Malti Devi**  
**Company Secretary**

**NOTICE FOR CLOSURE OF OFFICE**  
(POLICYBAZAAR INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED)

We are closing our office situated at D-93, Ground Floor Shopping Mall, DLF City, Phase-1, Gurugram-Haryana-122001 ("Demised Premises") on 31<sup>st</sup> July 2023. Our office at Unit no 98 Ground Floor Block- C The Arcadia South City 2 Gurugram-122018 would be the nearest operational office, our business, including website, email addresses and telephones are fully operational and no changes / delays is being experienced in the servicing of our customers.

Registered Office - Plot No.119, Sector - 44, Gurgaon, Haryana - 122001 (IRDAI Registration No. 742, Valid till 09/06/2024, License category- Direct Broker (Life & General) CIN: U47499HR2014PTC053454)

**FORM G**  
**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR SHUBHKAMNA BUILDWELL & ESTATES PVT. LTD**

OPERATING IN REAL ESTATE ACTIVITIES AT NEW DELHI AND GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH  
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the corporate debtor along with PAN/CIN/LLP No.	SHUBHKAMNA BUILDWELL & ESTATES PRIVATE LIMITED CIN - U45200DL2010PTC210885
2. Address of the registered office	Flat No. 37-B, GF, Pocket-IV, Mayapuri Vihar Phase-I Delhi East, Delhi -110091
3. URL of Website	https://www.resurgentpr.com/cirp-detail.php?id=12
4. Details of Place where majority fixed assets are located	Shubhkamna Epic, Plot No GH- 02/A, Sector 12, Greater Noida, Uttar Pradesh.
5. Installed Capacity of Main Products/Services	Not Applicable
6. Quantity and Value of Main Products/services sold in last financial year	NIL
7. Number of Employees/ Workmen	NIL
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, list of creditors, relevant dates for subsequent events of process are available at:	Details can be requested by email at cirp.shubhkamnabuildwell@gmail.com
9. Eligibility for Resolution Applicants under section 25(2)(h) of the code is available at:	https://www.resurgentpr.com/cirp-detail.php?id=12 or Details can be requested by email at cirp.shubhkamnabuildwell@gmail.com
10. Last date for receipt of expression interest	Previous date: 27.07.2023 Extended date: 20.08.2023
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	30.08.2023
12. Last date for submission of objections to provisional list	04.09.2023
13. Process email id to Submit EOI	cirp.shubhkamnabuildwell@gmail.com

**SHAILENDRA SINGH**  
Resolution professional  
In the CIRP of Shubhkamna Buildwell & Estates Private Limited  
**IP Registration no:** IBBI/IPA-002/IP-NO0471-2017-2018/11372  
Present Office: J-16, 2nd Floor, Jangpura Extension, Delhi-110014  
**Registered address:** 1201A-1201C, 12th Floor, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001  
**E Mail Id:** cirp.shubhkamnabuildwell@gmail.com, shailendralaw@gmail.com  
Place: New Delhi  
Date: 01.08.2023

**SYRMA SGS TECHNOLOGY LIMITED**  
CIN: L30007MH2004PLC148165

Regd. Office: Unit F601, Floral Deck Plaza, Andheri East, Mumbai-400093.  
Tel + 91 22 4036 3000, Website: www.syrmasgs.com, E-mail ID: investorrelations@syrmasgs.com

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2023**  
(Amount in Rs. Million)

Sr. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Current Quarter ended 30/06/2023	Corresponding Quarter ended 30/06/2022	Current Quarter ended 30/06/2023	Corresponding Quarter ended 30/06/2022
1	Revenue from Operations	3,082.87	1,861.20	6,013.06	3,893.36
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	155.18	38.33	413.35	238.65
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	155.18	38.33	413.35	238.65
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	100.09	24.52	283.29	171.51
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	97.07	24.01	270.09	170.44
6	Equity Share Capital	1,767.78	1,414.11	1,767.78	1,414.11
7	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of current year	NA	NA	NA	NA
8	Earning per Share (of Rs. 10 each) (1) Basic (Rs.) (2) Diluted (Rs.)	0.57 0.56	0.18 0.17	1.61 1.60	1.23 1.21

**Notes:**  
1) The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with BSE and NSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company (https://syrmasgs.com).

For Syрма SGS Technology Limited  
Jasbir Singh Gujral  
Managing Director  
DIN : 00198825

Place: Mumbai  
Date: 01 August 2023

**IDFC First Bank Limited**  
(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)  
CIN : L65110TN2014PLC097792  
Registered Office - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chelpet, Chennai- 600031.  
Tel : +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

**APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)**

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 29.03.2023 calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors **1. Anand Electronics Prop Rakesh Luthra, 2. Aditya Luthra, 3. Rakesh Luthra, 4. Sangeeta Luthra to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1.55,10,877.26/- (Rupees One Crore Fifty Five Lac Ten Thousand Eight Hundred Seventy Seven And Twenty Six Paise Only) as on 21.03.2023, within 60 days from the date of receipt of the said Demand notice.** The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub - section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **29th day of July 2023.** The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **THE IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs.1.55,10,877.26/- (Rupees One Crore Fifty Five Lac Ten Thousand Eight Hundred Seventy Seven And Twenty Six Paise Only) and interest thereon.** The borrower's attention is invited to provisions of sub - Section (B) Of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

**Description of the Immovable properties.**

**All That Piece And Parcel Of Property Bearing No. C-7/12 On Third Floor, With Roof Rights Southern Portion, Measuring Area Of Plot 191.47 Sq. Mtrs. (229 Sq. Yds.) Having Its Plinth Covered Area 142.19 Sq. Mtrs., Situated In The Abadi Of Krishna Nagar, In The Area Of Village Ghondli, Illaqa Shahdara, Delhi-110051, And, Bounded As:  
East: Others Property No. C8/12, West: Road, North: Others Property, South: Property No. C-7/13**

Date: 29th July 2023  
Place: Ghondli.  
Loan Account No:19109278 & 32980175. (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)

Authorised Officer  
IDFC FIRST Bank Limited

**ALLIANCE INTEGRATED METALICS LIMITED**  
CIN No.: L65993DL1989PLC035409

Regd. Off.: DSC-327, Second Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017  
Ph: +91-11-40517610 | E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com | Website: www.aiml.in

**EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023**  
(Rupees in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30/06/2023 (Un-Audited)	31/03/2023 (Audited)	30/06/2022 (Un-Audited)	31/03/2023 (Audited)
1	Total Income from operations	1,262.82	1,317.95	1,647.26	5,876.38
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	-2,604.37	-4,111.44	-2,013.04	-9,642.11
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-2,604.37	6,702.50	-2,013.04	1,171.83
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-2,604.37	6,702.50	-2,013.04	1,171.83
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-2,604.37	6,700.23	-2,013.04	-1,169.56
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1161.25	1161.25	1161.25	1161.25
7	Other Equity	-	-	-	(35,972.94)
8	Earnings per Share (of Re 10/- each) for continuing and discontinued operations:-				
a	Basic	-2.24	5.77	-1.73	1.01
b	Diluted	-2.24	5.77	-1.73	1.01

**Notes to financial result:**  
1. The above results were reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 31st July, 2023 and the Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the same.  
2. The figures for the previous period have been re-grouped/re-classified to make them comparable with the figures for the current period.  
3. The above is an extract of the detailed audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full formats of the same are also available on the website of the Company www.aiml.in and the website of BSE i.e. www.bseindia.com.

For Alliance Integrated Metalic Ltd  
Sd/-  
Daljit Singh Chahal  
(Chairman cum Whole Time Director)  
DIN: 03331560

Date: 31.07.2023  
Place: New Delhi

**IndusInd Bank**  
Registered Office: IndusInd Bank Limited, 2401 Gen. Thimmayya Road (Cantonment), Pune - 411 001, India.  
Zonal Office: FRR Group, 11th Floor, Hyatt Regency Complex, New Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

**Notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("the Act")**

Notice is hereby given to the borrower / mortgagors / guarantors, who have defaulted in the repayment of principal and interest of loan facility obtained by them from the Bank and whose loan account has been classified as Non-Performing Assets (NPA) on **28th January, 2023**. The notices were issued to them on **30th June, 2023** under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest, 2002 (SARFAESI Act) on their last known addresses calling upon and demanding from them to repay the entire outstanding of **Rs. 10,95,41,799 (Rupees Ten Crore Ninety Five Lacs Forty One Thousand Seven Hundred Ninety Nine only) as on 30.04.2023** and further interest thereon as per the contractual rate plus any other costs, charges, expenses incurred thereon. However, few of the notice(s) have returned un-served and as such they are hereby informed by way of this public notice.

**1. M/s Shorewala Roller Flour Mills Private Limited (Borrower) Directors: Mr. Kamal Shorewala, Mr. Dhruv Shorewala, Village Batta, District Kathal (Haryana) 136027.**  
**2. Mr. Kamal Shorewala (Guarantor/ Director/ Mortgagor) S/o Mr. Prem Chand Shorewala, House No. 1359-B, Ambala Road, Opposite Milan Palace, Model Town, Kathal 136027 Haryana.**  
**3. Mr. Dhruv Shorewala (Guarantor/ Director/ Mortgagor) S/o Mr. Amarnath Shorewala, House No. 285/6, Pansarian Street, Kathal 136027 Haryana.**  
**4. Mrs. Monika Shorewala (Guarantor/ Mortgagor) W/o Kamal Shorewala, House No. 1359-B, Ambala Road, Opposite Milan Palace, Model Town, Kathal 136027 Haryana.**  
**5. Mrs. Heena Shorewala (Guarantor/ Mortgagor) House No. 285/10, Pansarian Street, Kathal 136027 Haryana.**  
**6. Mrs. Nirmala Rani Alias Nirmala Shorewala (Guarantor/ Mortgagor) W/o Mr. Amarnath Shorewala, House No. 286/6, Pansarian Street, Kathal 136027 Haryana. Also at: House No. 286/10, Pansarian Street, Kathal 136027 Haryana.**  
**7. Mrs. Narmada Shorewala Alias Narmada Rani (Guarantor/ Mortgagor) W/o Mr. Prem Chand, House No. 1359-B, Ambala Road, Opposite Milan Palace, Model Town, Kathal 136027 Haryana**

**Details of Secured Assets:-**  
**Collateral Property 1:** Commercial Unit Bearing No. 415 on 4th Floor (without roof rights) (measuring 5300 sq. ft.) City Centre Mall, developed on Plot No. 1B3 (Measuring 6762 sq mtr), situated at Twin District Centre, Sector 10, Rohni, Delhi 110085 Super Area 7571 sq. ft. Owner's Kamal Shorewal S/o Prem Chand, Dhruv Shorewala S/o Amarnath, Monika Shorewala W/o Kamal Shorewala, Nirmala Rani W/o Amarnath, Occupied by J K Enterprises, Sale Deed No. 5411 dated 31.03.2011.  
**Collateral Property 2:** Commercial Unit No. 317, C & D, 3rd Floor, Central Mall, Plot No. 1B3, situated at Twin District Centre, Sector 10, Rohni, Delhi 110085, Carpet Area 6390 Sq ft. Super Area 9807 Sq Feet, Owner's Heena Shorewala, Narmada Shorewala, Occupied by Red Reality Infotech Pvt. Ltd., Sale Deed no. 17534 dated 04.10.2011.  
**Note:** Above mentioned both the properties are also mortgaged under the loan account of M/s Shorewala Paper Industries Private Limited.

The above name borrower and their guarantors / mortgagors are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice failing which further steps will be taken after expiry of 60 days under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESI Act, 2002.

Date: 02.08.2023  
Place: Kathal (Haryana)  
For IndusInd Bank Ltd.  
Authorised Officer

For further details, please see the chapter titled "Basis for Issue Price" beginning on page 75 of the RHP.

**BID/ ISSUE PROGRAM**

**ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE<sup>(1)</sup>: FRIDAY, AUGUST 04, 2023**

**BID/ ISSUE OPENS ON<sup>(1)</sup>: MONDAY, AUGUST 07, 2023**

**BID/ ISSUE CLOSES ON: WEDNESDAY, AUGUST 09, 2023**

<sup>(1)</sup>Our Company in consultation with the BRLM may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/ Issue Opening Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 181 of this Red Herring Prospectus.

**Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/ Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/ Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.**

**CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS:** For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Corporate Structure" on page 113 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 227 of the Red Herring Prospectus.

**LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA:** The Liability of the members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

**AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:** The authorized share Capital of the Company is Rs. 7,50,00,000/- (Rupees Seven Crore Fifty Lakhs only) divided into 75,00,000 (Seventy Five Lakh) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus.

**NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:** Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Neihaha Rathi - 5,000 Equity Shares and Ranawat Ranjana - 5,000 Equity Shares of Rs. 10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 113 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 59 of the Red Herring Prospectus.

**LISTING:** The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the NSE EMERGE (SME Platform of NSE). Our Company has received an "in-principle" approval from the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated June 30, 2023. For the purpose of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be NSE Limited (NSE). A signed copy of the Red Herring Prospectus has been delivered for registration to the ROC on July 29, 2023 and Prospectus shall be delivered for filing to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 227 of the Red Herring Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"):** Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 159 of the Red Herring Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE EMERGE ("EMERGE Platform of NSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by NSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE.

**GENERAL RISK:** Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 25 of the Red Herring Prospectus.

**ASBA\*** Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it !!!

\*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.  
**Mandatory in Public Issues from January 01, 2016.**  
No cheque will be accepted

**UPI** UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)\*\*  
Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI - Now available in ASBA for RIBs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIBs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

Investors have to apply through the ASBA process. \*ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor, UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 181 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document.  
\*ASBA forms can be downloaded from the website of NSE EMERGE ("SME Portal of NSE")  
\*\*List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. AXIS BANK Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id- ipo.upi@npci.org.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For issue related grievance investors may contact: GYR Capital Advisors Private Limited -Mr. Mohit Baid (+91 87775 64648) (Email Id: info@gyrcapitaladvisors.com).

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<p><b>GYR Capital Advisors</b> GYR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED (Formerly known as Alpha Numero Services Private Limited) 428, Gala Empire, Near JB Tower, Drive in Road, Thaltej, Ahmedabad -380 054, Gujarat, India. Telephone: +91 87775 64648 Fax: N.A. E-mail: info@gyrcapitaladvisors.com Website: www.gyrcapitaladvisors.com Investor grievance: investors@gyrcapitaladvisors.com Contact Person: Mohit Baid SEBI Registration Number: INM000012810</p>	<p><b>BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED</b> Address: Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400093 Tel: +91 022 62638200 Fax: +91 022 62638299 Email: ipo@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Contact Person: Aniket Chindarkar SEBI Registration Number: INR000001385</p>	<p><b>SRIVARI</b> SRIVARI SPICES AND FOODS LIMITED Ms. Aradhana Purnali Kawde Shed No. 5-105/4/A, SY No.234/A, Sriram Industrial Area, Kattedan, Jalpally, Hyderabad - 500 077, Telangana, India. Telephone: +91 737 588 8999 Website: www.srivarispces.com Email: info@srivarispces.com CIN: U15494TG2019PLC130131</p> <p>Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.</p>

**AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS:** Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.anon.co, the website of the BRLM to the Issue at: www.gyrcapitaladvisors.com, the website of NSE Emerge at https://www1.nseindia.com/emerge/index\_sme.htm, respectively.

**AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS:** Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Shed No. 5-105/4/A, SY No.234/A, Sriram Industrial Area, Kattedan, Jalpally, Hyderabad - 500 077, Telangana, India. Telephone: +91 737 588 8999; BRLM: GYR Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91 87775 64648 and the Syndicate Member: GYR Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91 87775 64648 and Sub-Syndicate Member: Giriraj Stock Broking Private Limited, Telephone: 033-4005 4519 / 95474 73969, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

**ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK:** ICICI BANK LIMITED.  
UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.  
**All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.**

On behalf of Board of Directors  
For SRIVARI SPICES AND FOODS LIMITED  
Sd/-  
Mr. Aradhana Purnali Kawde  
Company Secretary & Compliance Officer

**Disclaimer:** Srivari Spices and Foods Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Hyderabad, Telangana on July 29, 2023 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www1.nseindia.com/emerge/index\_sme.htm and is available on the websites of the BRLM at www.gyrcapitaladvisors.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.  
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulations under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

अभियुक्त व्यक्ति की हजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्योगपणा (घारा 82 Cr.P.C. देखिए) मेरे सम्बन्ध परिवार दिया गया है कि अभियुक्त राकेश पुत्र राजिन्दर निवासी सी-393, द्वितीय तल, जेजे कालोनी, वजीरपुर, दिल्ली ने केस एफआईआर नं. 632/20 अन्तर्गत घारा 379/411 आईपीसी के तहत थाना मोती नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है...

गुमशुदा/अपहृत की तलाश सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की (फोटो में दर्शायी गई) जिसका नाम वर्षा रायकवार उर्फ बरसा रायकवार पुत्री गुवडी रायकवार निवासी मकान नं. 649-650-651, ई-ब्लॉक, गली नंबर 12, श्याम विहार फेज-1, नजफगढ़, नई दिल्ली जो दिनांक 11.06.2023 को दोपहर 3:00 बजे से अपने घर से लापता/अपहृत है। इस संदर्भ में एक एफआईआर नं. 240/2023 अन्तर्गत घारा 363 आईपीसी के तहत दिनांक 13.06.2023 को थाना छावला, नई दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। स्थानीय पुलिस ने इस लड़की का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।

जिसका हलिया नोचे दिया गया है:- पहना: महिला, आयु: 13 वर्ष, कद: 4' फीट, रंग: गोरा, चेहरा: गोल, शरीर: सामान्य, लिंग: महिला- नीले रंग का सूट व संतरी रंग की सलवार और पीपों में काले रंग की चप्पल। अगर किसी को इस गुमशुदा/अपहृत लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्नलिखित पता पर सूचित करें:- थाना प्रभारी थाना: छावला, दिल्ली फोन: 011-25316300 मोबाइल: 8750871631 DP/7936/DW/2023

आर्टसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजी. कार्यालय एन कारो 7वां फ्लोर, 2023 का. एन. 125001 (हरियाणा) पता: एन. 125001, हरियाणा-125001 (हरियाणा) फोन नं. 98120-20111, 98120-40111 ईमेल आईडी: artscitec@gmail.com, artscitec@artscitec.com कोऑर्डिनेट: 129120101989293, C03-9881

John Oakley And Mohan Limited CIN : L15549D1962PLC003726, Regd. Office: Office No. 4, FF, CSC Pocket E Market Mayur Vihar, Phase-2, Delhi - 110091

न्यायालय जिला न्यायाधीश, उद्योग (राज.) प्रोवेट प्रमाण पर हेतु प्रार्थना पत्र (आ. 65/2019 सु.सी. 38) प्रतिकर पर प्रमाणित आदि निकाय नंबर 219-2011, नवदुर्गा, नई दिल्ली

जगत ट्रेडिंग एन्टरप्राइज लिमिटेड सीआईएन: L74999DL1982PLC014411 पंजी. कार्यालय: 208, कैम्प हाउस-II, कर्मगुरु कम्प्यूटिरी सेक्टर, नई दिल्ली-110015

सूचना सेबी (सूचीबद्ध दाखिल तथा उद्योगपणा अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा 29 के अध्यायों के अनुपालन में एनएसएल सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 14 अगस्त, 2023 को आयोजित की जाएगी जिसमें 14 सदस्यों के साथ 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही/तीनों महीने के अंतिम तिमाही पर विचार, अनुमोदन कर उसे अंतिम रूप में लिये जाएगी।

The Indian Express. For the Indian Intelligent. I arrive at a conclusion not an assumption. Inform your opinion detailed analysis.

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED CIN No.: L65993DL1989PLC035409 Regd. Off.: DSC-327, Second Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017

indianexpress.com The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE

IDBI BANK आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रीटल एक्टिव, 8वां मंजिल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पूर्वी क्लवर्ड नगर, नई दिल्ली-110023

infoedge इन्फो एज (इण्डिया) लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1995PLC068021 पंजीकृत कार्यालय: जीएफ-12ए, 94, मेघदूत विल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

28वीं वार्षिक आम बैठक और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 28वीं एजीएम आहूत करने की सूचना, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट सहित कम्पनी के सदस्यों के पास भेजा जा चुका है, में निम्नलिखित प्रकारों के लेन-देन के लिए कम्पनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से शुरूवार, 28 अगस्त, 2023 को 5.30 बजे अप. पर आयोजित की जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 तथा यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता दाखिल एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी एजीएम की सूचना में निम्नलिखित प्रकाश में दर्ज पर अधिनियम के प्रयोज्य प्रावधानों एवं प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार समस्त पात्र सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ("ई-वोटिंग") (सामूहिक रूप से "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग" सन्दर्भित) की सुविधा प्रदान कर रही है।

- (क) केवल कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुरूवार, 18 अगस्त, 2023 तक भौतिक या अर्थात्क प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य ही सूचना में निम्नलिखित प्रकारों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के पात्र होंगे।
- (ख) वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सहित एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य कम्पनी द्वारा 1 अगस्त, 2023 को पूरा कर लिया गया है।
- (ग) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को 09.00 बजे पूर्व. भा.मा.स. प्रारम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 24 अगस्त, 2023 को 05.00 बजे अप. भा.मा.स. समाप्त होगी। इसके पश्चात् मतदान के लिए ई-वोटिंग माँड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और कथित तिथि के पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

मेकसेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पंजी. कार्यालय: प्लॉट नंबर 123, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122001, हरियाणा सीआईएन नंबर: U74999HR2010PLC092002 | ईमेल: makesense@infoedge.com

फॉर्म नं. सी.ए. 2 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) और कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और 7 के अनुसार]

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी मेकसेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कॉर्पोरेट पहचान संख्या U74999HR2010PLC092002 है और पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 123, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122 001, हरियाणा ... कंपनी/अन्तरक कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ('अधिकरण') ('अधिकरण आदेश') द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई 2023 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत मेकसेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कम्पनी') या 'अन्तरक कम्पनी' के साथ पीबी फिनटेक लिमिटेड ('अन्तरिती कम्पनी') और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ समामेलन की प्रस्तावित योजना ('योजना') पर विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन करने के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक ('बैठक') शनिवार, 2 सितंबर 2023 को सुबह 10.30 बजे (भा.मा.स.) आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

अधिकरण के आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार, और अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, आगे नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी'), अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अधिकरण आदेश के संदर्भ में, योजना की प्रति के साथ उपरोक्त बैठक की व्यक्तिगत सूचना, अधिनियम की धारा 102 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 और 232 और कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 ('सौएए') के नियम 6 के तहत विवरण और सभी अनुलग्नक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन इक्विटी शेयरधारकों (1 अगस्त, 2023 तक) को पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('अरटीए') यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('एलआईआईपीएल'), या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

उपरोक्त बैठक की सूचना और संलग्नक दस्तावेज लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी डाले गए हैं, जो उपरोक्त बैठक के लिए ई-वोटिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी है। ट्रिब्यूनल ने डॉ. सुरेखा टुकराल, अधिवक्ता और उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती कृष्णा अनमोल सिंह, अधिवक्ता को किसी भी स्थान या आरक्षण सहित कंपनी की उपरोक्त बैठक के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, और श्री निखिल सरोवका, चाईट अकाउंटेंट को कंपनी की उपरोक्त बैठक के लिए संचालक नियुक्त किया गया है।

चूँकि, बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी, शनिवार, 26 अगस्त 2023 को सदस्यों के रजिस्ट्रार या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभांशगी स्नामियों के रजिस्ट्रार में दर्ज है, केवल वही नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने और बैठक में भाग लेने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर इक्विटी शेयरधारक नहीं है, उसे नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के पास वस्तुतः आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से (क) वस्तुतः रूप से वोट डालकर योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर मतदान करने ('बैठक में ई-वोटिंग'); या (ख) रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा ('रिमोट ई-वोटिंग') की सुविधा और विकल्प का उपयोग करने की उपलब्धता होगी। ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तारीख और बैठक की रिमोट ई-वोटिंग के लिए समय अवधि इस प्रकार है: